



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 11.11.2021

1-थाना दादरी पुलिस द्वारा, जान से मारने की नियत से गोली चलाने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तंमचा देशी 315 बोर व 02 कारतूस बरामद।

दिनांक 10.11.2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 945/2021 धारा 307/504/506 भादवि के अंतर्गत एक वांछित अभियुक्त माजिद उर्फ बगदादी पुत्र जहिरूद्दीन निवासी मौ0 मेवातियान कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को फेज-ए-आम मदरसे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तंमचा 315 बोर व 02 कारतूस बरामद हुए हैं।

### अभियुक्त का विवरण:

माजिद उर्फ बगदादी पुत्र जहिरूद्दीन निवासी मौ0 मेवातियान कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

### अभियोग का विवरण:

1. मु0अ0सं0 945/2021 धारा 307/504/506 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 1008/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

### बरामदगी का विवरण:

एक अवैध तंमचा देशी 315 बोर मय 02 कारतूस



**#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के अंतर्गत 04 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 03 से 05 वर्ष लावारिस अवस्था में घूम रहे थे। सूचना पर डॉयल 112 द्वारा अथक प्रयास कर बच्चों को मिलाया परिजनों से।**

दिनांक 10.11.2021 को डॉयल 112 पर कॉलर द्वारा सूचना दी गयी कि थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 45 आम्रपाली रोड छलैरा मार्किट में 04 बच्चें भटक रहे हैं, जो अपने घर का नाम पता कुछ भी बता पाने में असमर्थ है, सूचना पर पीआरवी 3831 द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये बच्चों को अपनी सुपुर्दगी में लेकर माइक तथा धार्मिक स्थानों के लाउडस्पीकर द्वारा अनाउंसमेंट कराया गया, अथक प्रयास करते हुये पीआरवी द्वारा बच्चों के परिजनों को तलाश कर बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पीआरवी द्वारा किये गये इस कार्य की स्थानीय लोगो द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।